

पक्षी सर्वेक्षण: कांगेर घाटी पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राज्यीय पक्षी सर्वेक्षण के दौरान कांगेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण में लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया।

कांगेर घाटी

- ❖ यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
- ❖ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसकी लम्बाई में बहने वाली कांगेर नदी से लिया गया है।
- ❖ कांगेर घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- ❖ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन क्षेत्र है जिसमें साल, सागौन और बाँस के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध हैं।
- ❖ इस राष्ट्रीय उद्यान में तीन असाधारण गुफाएं अवस्थित हैं - कुटुम्बसर, कैलाश और दंडका। ये स्टेलेगमाइट्स और स्टैलेक्टाइट्स की अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही यह राष्ट्रीय उद्यान ड्रिपस्टोन और फ्लोस्टोन के साथ भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है।
- ❖ तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है।



स्रोत- टाइम्स ऑफ़ इंडिया

सामाजिक शत्रुता सूचकांक (SHI)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी सामाजिक शत्रुता सूचकांक (SHI) में भारत को 2020 में कोविड प्रतिबंधों के प्रभाव के संदर्भ में धर्म से सम्बद्ध सामाजिक शत्रुता के कारण शीर्ष पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- ❖ यह सूचकांक अमेरिकी थिंक-टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया जाता है।
- ❖ भारत का SHI पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी निम्न स्थान पर है। इस सूचकांक में 198 देशों को शामिल किया गया है।

- ❖ SHI निजी व्यक्तियों, संगठनों या समूहों द्वारा धार्मिक शत्रुता के कार्यों को मापता है। सूचकांक में 13 मेट्रिक्स शामिल हैं, जिनमें धर्म से संबंधित सशस्त्र संघर्ष या आतंकवाद और भीड़ या सांप्रदायिक हिंसा शामिल हैं।
- ❖ SHI की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों में यह शामिल था कि क्या देश ने हिंसा को धार्मिक घृणा या पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया, क्या व्यक्तियों को धार्मिक घृणा या पूर्वाग्रह से प्रेरित उत्पीड़न या धमकी का सामना करना पड़ा और क्या विशेष धार्मिक समूहों के खिलाफ भीड़ हिंसा हुई थी?
- ❖ सबसे अधिक आबादी वाले देशों में, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश में धर्म से जुड़ी "बहुत अधिक" सामाजिक शत्रुता के मामले देखे गए।

स्रोत: लाइवमिंट

शी स्टेम-2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वीडन-भारत नोबेल मेमोरियल वीक के दौरान स्वीडन एम्बेसी एवं अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एवं जर्मन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च द्वारा SHE STEM कार्यक्रम लगातार तीसरे वर्ष सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

SHE STEM क्या है ?

- ❖ SHE STEM नोबेल मेमोरियल वीक का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- ❖ उद्देश्य- इसका उद्देश्य STEM और स्थिरता के क्षेत्र में महिला नवप्रवर्तकों, प्रौद्योगिकीविदों, वैज्ञानिकों और संस्थापकों के योगदान को बढ़ाना है एवं युवा महिला नेताओं को STEM के क्षेत्र में शामिल होने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही STEM क्षेत्रों में नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना है।

स्रोत- पीआईबी

फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

RBI द्वारा डिजिटल लेंडिंग पर दिशा-निर्देश जारी किए जाने के 2 महीने बाद भी बैंक, NBFC और फिनटेक खिलाड़ी FLDG प्रणाली सहित कई पहलुओं पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- ❖ FLDG ,फिनटेक और एक विनियमित संस्था के बीच एक ऋण देने वाला मॉडल है जिसमें एक तीसरा पक्ष विनियमित संस्थाओं के ऋण पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट के एक निश्चित प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है।

THE STUDY
BY MANIKANT SINGH

thestudyias@gmail.com
MOB: 9999516388

- ❖ इन समझौतों के तहत, फिनटेक एक ऋण उपलब्ध करवाता है और ग्राहकों द्वारा ऋण चुकाने में विफल रहने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित प्रतिशत तक भागीदारों को मुआवजा देने का वादा करता है।
- ❖ बैंक/एनबीएफसी, भागीदार फिनटेक के माध्यम से उधार देते हैं लेकिन अपनी स्वयं की पुस्तकों से नहीं। FLDG पारंपरिक उधारदाताओं के ग्राहक आधार का विस्तार करने में मदद करता है जो फिनटेक की अंडरराइटिंग क्षमताओं पर निर्भर करता है।
- ❖ डिजिटल ऋण देने पर आरबीआई द्वारा गठित कार्यकारी समूह की एक रिपोर्ट ने अनियमित संस्थाओं के साथ FLDG समझौतों के जोखिमों को निर्धारित किया है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस



THE STUDY
BY MANIKANT SINGH

thestudyias@gmail.com
MOB: 9999516388